



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 1984/आषाढ़ 27, 1986  
No. 265] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 1984/ASADHA 27, 1986

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

खाद्य और सिविल आपूर्ति मंत्रालय  
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1984

मा. का. नि. 515 (अ)/आ. व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक  
वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, चीनी (मान्यताप्राप्त व्यवहारी द्वारा प्रतिधारण और विक्रय) आदेश,  
1979 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है,  
अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम, चीनी (मान्यता प्राप्त व्यवहारी द्वारा  
प्रतिधारण और विक्रय) संशोधन आदेश, 1984 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. चीनी (मान्यताप्राप्त व्यवहारी द्वारा प्रतिधारण और विक्रय) आदेश,  
1979\* में, खण्ड 5 के उप-खण्ड (1) में, "या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार  
510 G1/84 (1)

द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“या प्रवर्तन अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई अन्य अधिकारी जो खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग के निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है” ।

[सं. 1-50/79-एस. पी. वार्ड. (डी. 2)]

एन. आर. बनेजी, संप्रभु सचिव (चीनी)

\*सा. का. नि. 702(ई)/आ. व./चीनी, तारीख 17-12-1979 ।

सा. का. नि. 510(ई)/आ. व./चीनी, तारीख 4-9-1980 ।

## MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

### ORDER

New Delhi, the 18th July, 1984

G.S.R. 515(E)|Ess.Com.|Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar, (Retention and Sale by Recognised Dealers) Order, 1979, namely

1. (1) This order may be called the Sugar (Retention and Sale by Recognised Dealers) Amendment Order, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Retention and Sale by Recognised Dealers) Order, 1979, in sub-clause (1) of clause 5, for the words “or any other officer authorised in this behalf by the Central Government or the State Government”, the following words shall be substituted, namely :-

“or Enforcement Inspector or any other officer of the Central or State Governments not below the rank of an Inspector of the Food and Civil Supplies Department”.

[No. 1-50/79-SPY (D.II)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)

\*G.S.R. 702(E)|Ess.Com.|Sugar, dated 17-12-1979.

G.S.R. 510(E)|Ess.Com.|Sugar, dated 4-9-1980.